

दुधनी के प्रत्येक गांव को आदर्श गांव बनाऊंगा : आशीष कुंद्रा

- सांसद निधि से प्रत्येक गांवों में उपलब्ध कराऊंगा बुनियादी सुविधाएं : सांसद नटू पटेल
- दुधनी के प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का बड़ी संख्या में लोगों ने लिया लाभ



सिलवासा। दादरा नगर हवेली के दुधनी में आज प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशासक आशीष कुंद्रा के हाथों किया गया। इस अवसर पर दानह सांसद नटू पटेल, जिला कलेक्टर जी. एस. मीणा, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर वाघमारे, उपाध्यक्ष जीतू माढा, शिक्षा एवं पर्यटन सचिव रमेश वर्मा, शिक्षा निदेशिका मिताली नामचून, आईजी मनीष कुमार अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं

जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम में 27 विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाकर लोगों को लाभ दिया। डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में 10,234 आवेदन आए थे जिसमें से 8,861 का स्थल पर निपटारा किया गया। जिसमें राजस्व विभाग के सर्वाधिक 1200 आवेदन आए जिसमें से 1000 आवेदनों का स्थल पर ही निकाल किया गया। इसके साथ कृषि विभाग की ओर से बीज का वितरण किया गया।

वहीं वन विभाग ने वृक्षों का वितरण किया। दानह जिला पंचायत की ओर से वृद्धा एवं विधवा पेंशन वितरित की गई। दानह स्वास्थ्य विभाग ने 1071 मरीजों की जांच की एवं दवाएं भी दी। इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर संघ प्रदेश दमण-दीव एवं दानह प्रशासक आशीष कुंद्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन पारदर्शिता के साथ अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि दुधनी के प्रत्येक गांव को आदर्श

गांव बनाऊंगा। साथ ही लोगों से अपील किया कि इस तरह के कार्यक्रम का अधिकाधिक लाभ लें। सांसद नटू पटेल ने कहा कि दुधनी गांव से उनका काफी लगाव है। सांसद नटू पटेल ने दुधनी गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। उन्होंने सांसद निधि से प्रत्येक गांव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। इस अवसर पर सभी महानुभावों ने लगाये गये स्टॉल का निरीक्षण भी किया।

दुधनी में बाल स्वच्छता मिशन का प्रशासक आशीष कुंद्रा ने किया उद्घाटन

■ सांसद नटू पटेल, आईजी मनीष अग्रवाल, कलेक्टर जी. एस. मीणा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. वी. के. दास की रही उपस्थिति



सिलवासा 14 नवंबर। दादरा नगर हवेली के दुधनी कॉम्युनिटी हॉल में आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रशासक आशीष कुंद्रा के हाथों बाल स्वच्छता मिशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दानह सांसद नटू पटेल, आईजी मनीष अग्रवाल, दानह कलेक्टर जी. एस. मीणा, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर वाघमारे, सीईओ बीरेन्द्र चौधरी, मुख्य वन संरक्षक ओ. बी. आर. रेड्डी,

खेल सचिव वी. अब्राहम, विशेष सचिव (कार्मिक) लालचुं आगा, जिला पंचायत सदस्य भारती गोतरन सहित स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक डॉ. वी. के. दास ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए बाल स्वच्छता मिशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इसके बाद प्रशासक आशीष कुंद्रा, सांसद नटू पटेल एवं जिला कलेक्टर जी.

एस. मीणा ने अपने-अपने विचार प्रकट किये। इस कार्यक्रम में बच्चों को हाथ धोने की प्रक्रिया का डेमो दिखाया गया। जिसमें सभी गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही सभी छात्रों को तरल साबुन की बोतल दी गई। दादरा नगर हवेली के सभी स्कूलों में 14 नवंबर से 19 नवंबर तक बाल स्वच्छता मिशन का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें स्वच्छ आंगनवाड़ी, आसपास की

सफाई, स्वयं की स्वच्छता एवं बच्चों का स्वास्थ्य, स्वच्छ खाना, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ शौचालय पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। प्रशासन का मानना है कि बच्चे परिवर्तन एजेंट है जो अपने आपको, घर, स्कूल तथा आसपास की जगहों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे बच्चे स्वच्छता में सुधार लाने की दिशा में योगदान देंगे।